

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(जुन 2017)





डा अजय तिकी महापौर

प्रिय नगरवासियों ,

कोई भी संस्था के सफल संचालन में वहां के नगरवासियों का सहयोग आवश्यक होता है और नगर में चलने वाले प्रत्येक कार्यों की पारदर्शिता एवं सुगमता मेरी प्राथमिता रही है इसी तारत्वय में इस वेब साईट का निर्माण कराया गया है मेरा नगर वासियों से अपील है कि नगर में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत हो रहे शौचालयों का निर्माण अपने घरों में करा कर सहयोग प्रदान करें साथ ही आप सभी से अपील है कि समस्त करो का भुगतान समय पर करे, जल को व्यर्थ ना बहने दे, प्लास्टिक कैंरी बैगों का इस्तेमाल ना करे एवं कचरो में निपटान में सहयोग कर नगर निगम को एक मजबूत निगम बनाने में सहयोग प्रदान करे । अतः मैं आप के सभी कार्यों को तत्परता सुगमता से करने के वादे के साथ,आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप स्वस्थ रहे निरोग रहे इसी आशा के साथ आपका।

डा अजय तिकी महापौर

श्रीमति सूर्य किरण तिवारी अग्रवाल (सा.प्र.से.)

आयुक्त

स्वच्छ भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के सर्वोच्च कार्यों का प्रथम राष्ट्रीय सोपान है, और यह गर्व का विषय है कि छग के आदिवासी अंचल सरगुजा में अवस्थित नगर निगम अम्बिकापुर एवं अम्बिकापुर के सम्मानित नागरिकों ने इस सपने को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाई है, एवं उल्लेखनिय कार्य किया है, एस एल आर एम अम्बिकापुर माडल शत प्रतिशत डोर टु डोर संग्रहण एवं आजीविका मिशन का अनुपम उदाहरण है, इसी का परिणाम है कि इस श्रेष्ठ कार्य ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर इस अंचल को गौरवान्वित किया है, इस कार्य की कार्यस्थिती इस बात से ही प्रमाणित हो जाती है कि आज यह माडल छग के समस्त नगरीय निकायों के लिये मिशन क्लीन सिटी के रूप में प्रेरणा स्रोत बन चुका है, एवं पुष्पित एवं पल्लवित हो रहा है, इसके साथ ही अम्बिकापुर निगम खुले में शौच मुक्त नगर निगम का दर्जा प्राप्त कर अपने इस कार्य में सफलता का एक और पायदान कायम किया है

सूर्य किरण तिवारी अग्रवाल

दिनांक 6 जून 2017

पुणे की कंपनी से 15 दिन में होगा ननि का एग्रीमेंट

शहर में घुनघुटा जलाशय से पानी लाने के लिए मिशन अमृत से स्वीकृति एक अरब से अधिक की राशि का टेडर जारी होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने पुणे के तेजस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्रीमेंट की चिट्ठी भेज दी है पन्द्रह दिन के भीतर कंपनी से एग्रीमेंट होगा और कंपनी के अधिकारी अंबिकापुर पहुंच जाएंगे और फिल्ड का सर्वे कर डाईग डिजाइन प्रस्तुत करेंगे इस बीच सोमवार को कलेक्टर किरण कौशल नगर निगम के अधिकारियों के साथ घुनघुटा जलाशय पहुंची और बस बड़ी योजना की पूरी जानकारी ली

दिनांक 6 जून 2017

निगम का टेड लायसेंस बना अमृत मिशन का अडंगा

शासन के निर्देश के बाद भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जारी नहीं हो रहे टेड लायसेंस नगर निगम क्षेत्रों में अमृत मिशन योजना के तहत बड़े प्रोजेक्ट और निर्माण कार्यों में शासन के दिशा निर्देश के अनुसार नियमों का पालन न करने से अडंगा लग सकता है रायपुर राजधानी में हुये बैठक में बाद नौ बिन्दुओं के परिपालन का आदेश दिया गया था लेकिन निर्देश के बावजूद अब तक नगर निगम अम्बिकापुर से व्यापार अनुज्ञापति जारी होना शुरू नहीं हो सका है

दिनांक 17 जून 2017

राजमोहिनी भवन का 49 लाख से होगा कायाकल्प

नगर के सबसे बड़े माता राजमोहिनी देवी भवन का 49 लाख राशि से जीर्णोद्धार होगा इसके लिए राज्य शासन ने अधोसंरचना मद से राशि भी उपलब्ध करा दी है नगर निगम जल्दी इसका टेडर जारी करेगी और शहर के एकमात्र 500 सीटर इस संभागार का कायाकल्प हो जाएगा प्रथम चरण में प्राथमिकता से भवन का पुरा सेट बदला जाएगा

दिनांक 19 जून 2017

महामाया पहाड से अतिक्रमण हटाने की कारवाई धीमी उठ रहे सवाल

जिले के प्रभारी मंत्री के निर्देश के बाद महामाया पहाड को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु शुरू की गई प्रक्रिया एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई है निगम प्रशासन अब नोटिस देने के बाद अपने सूर बदलते हुए पंचायत के समय झोपडी बनाकर अतिक्रमण करने की बात कह रही है वहीं अभी तक राजस्व विभाग में भी इस मामले में कोई डवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है वन विभाग इस पुरे मामले को लेकर शुरू से ही धीमी गति से प्रक्रिया को अंजाम देते हुए लोगों को भरपुर मौका दे रहा है

दिनांक 19 जून 2017

नही मांगा मुआवजा सहमति से दे दी सडक चौडीकरण के लिए जमीन

गुरुद्वारा वार्ड के पार्श्वदो की सार्थक पहल का नतीजा जहां लोगों एक इंच जमीन के लिए एक दुसरे की जान ले लेने पर उतारू हो जाते हैं वहीं गुरुद्वारा वार्ड के लगभग 70 लोगों ने अपनी जमीन सडक चौडीकरण के लिए बिना मुआवजा के निगम को दे दी 9 फीट की सकरी सडक वार्ड पार्श्वद की पहल पर अब 35 फीट चौडी नजर आने लगी है लोगों की इस पहल को महापौर ने भी सराहना करते हुए सडक निर्माण के लिए महापौर निधि से 5 लाख रूपय वार्ड के पार्श्वदो ने अपनी निधि से 4 लाख रूपय दिय है

दिनांक 19 जून 2017

शहर नॉन ओडीएफ न हो जाए इसलिए न हो जाए इसलिए कडी निगरानी क्रास चेकिग करेगी सेंटल की टीम

शहर को ओडीएफ हुए कई महीने हो गए लेकिन अभी भी कई जगहो पर लोग खुले में शौच जा रहे हैं सेंटल की टीम के संभावित दौरे को देखते हुए निगरानी में लगी टीम सुबह जायजा लेने निकली तो कई जगहो पर लोग खुले में शौच करते हुए मिले ज्यादातर मजदुर व बाहर से आए हुए हैं खुले शौच करते पकडे एक व्यक्ति पर 50 रूपए जुर्माना वसुला गया वह बाहर से यहां शादी में आया हुआ था सेंटल टीम जुलाई के पहले हफते में अभियान की क्रास चेकिग करने आने वाली है

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने संपर्क करे.

कार्यालय का पता – नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी
अम्बिकापुर (छ.ग.)